

CONTINUOUS LEARNING PROCESS (CLP)

पुस्तक-वसंत भाग -2(साहित्य)

CLASS-VII

रचना-प्रसून 7 (व्याकरण)

HINDI

S.No.	Month	Chapter	Learning Outcome
1.	April	(साहित्य) पाठ-1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के(कविता) (व्याकरण) पाठ-1 भाषा-विचार:हिंदी भाषा और व्याकरण पाठ -3 संधि-स्वर संधि (पाँचों भेद)	<ul style="list-style-type: none"> •पक्षियों के आहार-व्यवहार व प्रकृति को जानेंगे। •खड़ीबोली,तत्सम-तद्भव शब्दों के प्रयोग,कविता की लय-ताल सीखेंगे। •सृजनात्मक व रचनात्मक क्षमता का विकास होगा। •मौलिक रूप से कविता लेखन व वाचन की वृत्ति का उदय होगा। •भाषा ज्ञान द्वारा भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास होगा। •भाषा की वर्तनी के सर्वमान्य रूप से परिचित होंगे। •संधि पाठ के अध्ययन से नव शब्द निर्माण की प्रक्रिया सीखेंगे •रचनात्मक कौशल का विकास होगा।
2.	May	(साहित्य) पाठ-3 हिमालय की बेटियाँ (निबन्ध) (व्याकरण) पाठ-5 शब्द-रचना:समास पाठ-6 शब्द-भंडार	<ul style="list-style-type: none"> •हिमालय की बेटियाँ पाठ के माध्यम से बच्चों में पर्यावरण व प्राकृतिक संपदाओं के प्रति उत्सुकता व जागरूकता का विकास होगा। •आधुनिक हिंदी के शब्दों के साथ ही तत्सम,तद्भव व विदेशी शब्दों से परिचित होंगे। •स्थान,घटना व स्थितियों का वर्णन करने की क्षमता का विकास होगा। •समास पाठ से संक्षेपीकरण,नव-शब्द निर्माण व सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। •विलोम शब्द,पर्यायवाची शब्द,एकार्थी व अनेकार्थी शब्दों को याद कर अपने शब्द कोश में वृद्धि करेंगे। •अर्थ पूर्ण शब्दों का महत्व समझ सकेंगे •रचनात्मक कौशल का विकास होगा।
3.	July	(साहित्य) पाठ-4 कठपुतली (कविता) (व्याकरण) पाठ-7 संज्ञा पाठ-8 संज्ञा के विकारी तत्व:लिंग,वचन व कारक	<ul style="list-style-type: none"> •कठपुतली पाठ के माध्यम से हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करना सीखेंगे। •कविता वाचन व लेखन कौशल का विकास होगा। •संज्ञा के माध्यम से शब्दों में भाव,जाति व नाम के अंतर को समझेंगे। •संज्ञा शब्दों में परिवर्तन के कारणों को जानकर भावाभिव्यक्ति कौशल का विकास करेंगे। •संज्ञा के विकारी तत्वों के ज्ञान से भाषा को शुद्ध रूप से लिखना-बोलना सीखेंगे।
4.	August	(साहित्य) पाठ-9 चिड़िया की बच्ची (कहानी) (व्याकरण) पाठ-9 सर्वनाम पाठ-18 मुहावरे और लोकोक्तियाँ	<ul style="list-style-type: none"> •चिड़िया की बच्ची पाठके माध्यम से अनुशासन,संतोष, वैराग्य आदि गुणों का विकास तथा स्वार्थ,धन-लोलुपता से दूर रहने की शिक्षा प्राप्त करेंगे। •पाठ में प्रयुक्त खड़ीबोली के शब्दों जैसे तैने,छनकर,खुश करियो आदि सीखेंगे। •नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम पाठ के माध्यम से जानेंगे। •सर्वनाम शब्दों के सही प्रयोग से भावाभिव्यक्ति में स्पष्टता व शुद्धता ला सकेंगे। •मुहावरे व लोकोक्ति के ज्ञान से भाषा में रोचकता, कम शब्दों में पूर्ण भावाभिव्यक्ति होगी।
5.	September	(व्याकरण) पाठ-21 अपठित गद्यांश पाठ-24 कहानी-लेखन पाठ-25 पत्र-लेखन Revision work	<ul style="list-style-type: none"> •पूर्व ज्ञान के आधार पर और प्रस्तुत विषय के अनुरूप प्रश्नों के उत्तर देना सीखेंगे। •अनदेखी स्थितियों को हल करने की क्षमता विकसित होगी। •कहानी-लेखन पाठ से रचनात्मक व सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। •कहानी के विषय के अनुसार शब्द चयन की योग्यता का विकास होगा। •जीवन अनुभवों का चित्रात्मक व रचनात्मक प्रयोग करना सीखेंगे। •लिखित रूप में भावाभिव्यक्ति की योग्यता का विकास पत्र लेखन की समझ से होगा। •लेखन क्षमता का विकास होगा।
6.	October	(व्याकरण) पाठ-4 शब्द-विचार पाठ-6 शब्द-भंडार पाठ -10 विशेषण	<ul style="list-style-type: none"> •शब्द-विचार पाठ से शब्दों की निर्माण प्रक्रिया को समझेंगे। •शब्द के प्रकार व भेद (अंतर)को समझेंगे। •विलोम शब्द,पर्यायवाची शब्द,एकार्थी व अनेकार्थी शब्दों को याद कर अपने शब्द कोश में वृद्धि करेंगे। •अर्थ पूर्ण शब्दों का महत्व समझ सकेंगे •रचनात्मक कौशल का विकास होगा। •भिन्न-भिन्न विशेषण शब्दों को जानेंगे। •विशेषण शब्दों के प्रयोग से भाषा में सुंदरता,रोचकता,सजीवता व स्पष्टता ला सकेंगे।

7.	November	(साहित्य) पाठ-11 रहीम के दोहे (कविता) (व्याकरण) पाठ -11 क्रिया पाठ -14 अविकारी शब्द	<ul style="list-style-type: none"> •ब्रजभाषा के शब्दों व उनके अर्थ को जानकार शब्द-कोश में वृद्धि करेंगे। •'दोहा' छंद की मात्रा,लय व गायन विधि सीखेंगे। •नैतिक व मानवीय मूल्यों व संवेदनाओं का विकास होगा। •क्रिया पाठ के माध्यम से बच्चे क्रिया का अर्थ,क्रिया का वाक्य में महत्व, क्रिया के भेद सीखकर उचित भावाभिव्यक्ति कर सकेंगे। •विचारात्मक व सृजनात्मक कौशल का विकास होगा। •अविकारी शब्दों के प्रयोग संबंधी नियम सीखकर भाषा-प्रयोग में सुंदरता,सशक्त भावाभिव्यक्ति कर सकेंगे। •प्रयोगात्मक व रचनात्मक कौशल का विकास होगा।
8.	December	(साहित्य) पाठ-15 नीलकंठ (रेखाचित्र) (व्याकरण) पाठ-15 वाक्य-विचार:अर्थ के आधार पर पाठ-22 अपठित काव्यांश	<ul style="list-style-type: none"> •नीलकंठ पाठ में वर्णित विभिन्न जीव-जंतुओं के स्वभावगत विशेषताओं से परिचित होंगे। •आधुनिक हिंदी के शब्दों,संधि व समास वाले शब्दों,तत्सम व विदेशी शब्दों को जानेंगे। •'रेखाचित्र' विधा की विशेषताओं को जानकर रेखाचित्र लिखने के लिए प्रेरित होंगे। •वाक्य-विचार पाठ के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के वाक्यों में अंतर करना सीखेंगे। •रचनात्मक व सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। •काव्य में निहित अर्थ समझकर,प्रश्न के अनुरूप उत्तर देने की क्षमता का विकास होगा। •समस्या-समाधान कौशल का विकास होगा।
9.	January	(साहित्य) पाठ-16 भोर और बरखा (व्याकरण) पाठ-27 संवाद लेखन पाठ-28 निबंध-लेखन Revision work	<ul style="list-style-type: none"> •भक्ति रस की कविता,ब्रजभाषा की सुंदरता,पद की विशेषता व गायन विधि सीखेंगे। •वर्णनात्मक व सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। •संवाद-लेखन पाठ से विचारात्मक भावाभिव्यक्ति सरल शब्दों में करना सीखेंगे। •वर्णनात्मक व विचारात्मक क्षमता का विकास होगा। •निबंध-लेखन से अध्ययनशीलता,मौलिकता,रचनात्मकता, उत्सुकता आदि गुणों का विकास कर सकेंगे। •भाषा/अनुभवों का सृजनात्मक प्रयोग करना सीखेंगे। •विस्मृत ज्ञान का उदय होगा।